



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1858]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938

No. 1858]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

**का. आ. 2513(अ).**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

और रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/489, तारीख 30 मार्च, 2016 का जिसमें उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्र के ब्यौरे अन्तर्विष्ट है, निरीक्षण कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति—

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई से हुई क्षति या सम्भावित क्षति अधिनियम की धारा 6 की उप- धारा (1) के अधीन किसी नुकसानी के लिये प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पट्टे के लिये प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये उक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को सुपुर्द करेगा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) को सौपेगा ।

## अनुसूची

वेस्ट आफ बासिन फतेहपुर (ए.बी.सी) कोल ब्लॉक, कोरबा क्षेत्र,

जिला— कोरबा, छत्तीसगढ़

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/489, तारीख 30 मार्च, 2016)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	फुलसरी	33	266	कोरबा	कोरबा	901.264	भाग
2.	सेमरकोना (अनसर्वेड)	33	-	कोरबा	कोरबा	39.100	भाग
3.	छिनबंधा (अनसर्वेड)	-	-	कोरबा	कोरबा	90.671	भाग
4.	सोलवा	-	264	कोरबा	कोरबा	1357.742	संपूर्ण
5.	बासिन	31	265	कोरबा	कोरबा	30.000	भाग
6.	कोल्गा	-	263	कोरबा	कोरबा	265.810	भाग
7.	जमींदारी वन(अनसर्वेड)	-	-	कोरबा	कोरबा	439.012	भाग
कुल : 3123.599 हेक्टर (लगभग) या 7718.41 एकड़ (लगभग)							

## सीमा वर्णन :

- क—ख रेखा बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और जमींदारी वन, ग्राम छिनबंधा के पूर्वी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख—ग रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होती है और ग्राम छिनबंधा के मध्य भाग, ग्राम सेमरकोना के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई ग्राम सेमरकोना में बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग—घ रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और ग्राम सेमरकोना, फुलसरी के मध्य भाग, ग्राम बासिन तथा जमींदारी वन के पश्चिमी भाग से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ—क रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और जमींदारी वन, ग्राम कोल्गा के उत्तरी भाग से होती हुई जमींदारी वन के पूर्वी भाग में आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/ 9 /2016—पीआरआईडब्ल्यू—I]

आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2016

**S.O. 2513(E).**—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/489, dated the 30th March, 2016, containing details of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Korba (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the aforesaid Schedule.

Any person interested in the land described in the above mentioned schedule may-

- (i) claim compensation under sub-section (1) of section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of Section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of Section 13 of the said Act, in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect, and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, to the Officer-in-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette .

### SCHEDULE

West of Basin Phatehpur (A,B,C) Coal Block, Korba Area,

District- Korba, Chhattisgarh

(Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/489, dated the 30th March, 2016)

All Rights:

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Phulsari	33	266	Korba	Korba	901.264	Part
2.	Semarkona (unsurveyed)	33	-	Korba	Korba	39.100	Part
3.	Chhinbandha (unsurveyed)	-	-	Korba	Korba	90.671	Part
4.	Solwa	-	264	Korba	Korba	1357.742	Full
5.	Basin	31	265	Korba	Korba	30.000	Part
6.	Kolga	-	263	Korba	Korba	265.810	Part
7.	Zamindari Forest (unsurveyed)	-	-	Korba	Korba	439.012	Part
Total: 3123.599 hectares (approximately) or 7718.41 acres (approximately)							

### Boundary description:

- A-B Line starts from point 'A' and passes through eastern part of Zamindari Forest, village Chhinbandha and meets at point 'B'.
- B-C Line starts from point 'B' and passes through middle part of village Chhinbandha, southern part of village Semarkona and meets at point 'C' in the village Semarkona.
- C-D Line starts from point 'C' and passes through middle part of village Semarkona, Phulsari, western part of village Basin, Zamindari Forest and meets at point 'D'.
- D-A Line starts from point 'D' and passes through northern part of Zamindari Forest, village Kolga and meets at starting point 'A' in the eastern part of Zamindari Forest.

[F. No. 43015/ 9 /2016-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.